

# मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (बी) के अंतर्गत

## जल संसाधन अनुविभाग जबलपुर

की दिनांक 01.10.2005 की स्थिति में जानकारी

## 1.0 संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य (अध्याय 2)

1.1	लोक प्राधिकरण के उद्देश्य	उपसंभाग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जल संसाधन संभाग के दायित्वों का निर्वहन
1.2	लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन	कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना एवं इन सुविधाओं का विस्तार करना
1.3	लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग	जल संसाधन संभाग के दायित्वों के निर्वहन हेतु प्रशासनिक दृष्टि संभाग का उपसंभागों में गठन
1.4	लोक प्राधिकरण के कर्तव्य	प्रदेश में विचाराधीन/निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के सर्वेक्षण, नियोजन एवं निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन एवं निर्मित सिंचाई परियोजनाओं का संचालन एवं रखरखाव
1.5	लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य	तदैव
1.6	लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण	तदैव
1.7	लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा	संलग्न एनेक्सर - एक में रेखाचित्र के माध्यम से दर्शाया गया है
1.8	लोक प्राधिकरण की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं	निरंक
1.9	जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था	निर्मित सिंचाई प्रणालियों के संचालन एवं रखरखाव के लिए मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 के अंतर्गत निर्वाचित कृषक संगठन
1.10	जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था	विभागीय स्तर पर अनुश्रवण
1.11	मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते (कृपया पतों का जनपदवार वर्गीकरण करें)	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग जबलपुर
1.12	कार्यालय के खुलने का समय : कार्यालय के बन्द होने का समय :	प्रातः 10.30 बजे सायं : 5.30 बजे

## 2.0 अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

(कृपया निम्न प्रारूप पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य का विवरण उपलब्ध कराएं)

अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन उपसंभाग जबलपुर	
शक्तियां	प्रशासकीय	उपसंभाग के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति
	वित्तीय	संचालन एवं रखरखाव की दृष्टि से जल उपभोक्ता संथाओं को सौंपी गई नहर प्रणालियों के रखरखाव कार्यों की रु. 50,000/- तक की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना
	अन्य	
कर्तव्य	प्रदेश में विचाराधीन/निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के सर्वेक्षण, नियोजन निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन एवं निर्मित सिंचाई परियोजनाओं का संचालन एवं रखरखाव	

### 3.0 कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

अभिलेख का नाम :

- अधिनियम : (अ) मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931  
 (ब) मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999  
 (स) लेखा संहिता
- नियम : कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधी नियम
- मेन्यूअल्य : (अ) मध्यप्रदेश कार्य विभाग मेन्यूअल्य 1983 भाग-I, II एवं III
- परिपत्र : (अ) मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग द्वारा जारी समस्त तकनीकी परिपत्र
- अन्य : (अ) शेड्यूल ऑफ रेट्स, 2003

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय :

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और  
 अभिलेख की प्रति कहां से  
 प्राप्त कर सकते हैं?

पता : कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग  
 जबलपुर

दूरभाष : 0761-2602441

फैक्स : -----

ई-मेल : -----

अन्य : -----

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख : विभागीय प्रावधान अनुसार  
 की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क :  
 (यदि कोई हो)

4.0 नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण

4.1 नीति निर्धारण हेतु :

क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधि की परामर्शी/भागीदारी का कोई प्रावधान है? यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हां/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
1.	निर्मित सिंचाई प्रणाली का संचालन एवं रखरखाव	हाँ	मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 के अंतर्गत निर्वाचित कृषक संगठन

4.2 नीति के कार्यान्वयन हेतु :

क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधि से/के परामर्शी/भागीदारी का कोई प्रावधान है? यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हां/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
निरंक			

5.0 लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों (categories) के अनुसार विवरण

लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी देने हेतु निम्न प्रारूप का प्रयोग करें। साथ ही यह भी बताएं कि यह दस्तावेज कहां उपलब्ध रहते हैं, जैसे कि सचिव स्तर पर, निदेशालय स्तर पर, अन्य। (कृपया 'अन्य' का उपयोग करने के स्थान पर स्तर का उल्लेख करें)

स. क्रं.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का प्रकार; यथा सूक्ष्म फिल्म, रजिस्टर, पुस्तकें, डिस्क इत्यादि	दस्तावेज की प्रकृति एवं विवरण (Nature & Content)	अभिलेखों की अवधि
संलग्न एनेक्सर - दो के अनुसार				

6.0 बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

कृपया लोक प्राधिकरण से सम्बद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रारूप के आधार पर दें।

निरंक
-------

7.0 लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां कृपया लोक प्राधिकरण में कार्यरत लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलेट अथोरिटी के संबंध में निम्न प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करें।

लोक प्राधिकरण का नाम : अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग  
क्रमांक-3 जबलपुर

#### उपसंभाग

सहायक लोक सूचना अधिकारी : मुख्यालय में पदस्थ उपयंत्रि श्री अनिल दुबे

विभागीय अपीलेट अथोरिटी :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस टी डी कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	कार्यपालन यंत्रि	कार्यपालन यंत्रि, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर	0761	2602441	2678219			सिविल लाईन्स जबलपुर

8.0 निर्णय लेने की प्रक्रिया  
संलग्न एनेक्सर - तीन के अनुसार

9.0 अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका  
कृपया जानकारी निम्न प्रारूप में जनपदवार दें।

स. क्रं.	नाम	पदनाम	पता एवं दूरभाष सम्पर्क नम्बर, यदि हो.
----------	-----	-------	---------------------------------------

1.	श्री एस.सी. जैन	अनुविभागीय अधिकारी	9300104600
2.	श्री आर.के. पटेल	उपयंत्री	
3.	श्री डी.के. बजाज	उपयंत्री	
4.	श्री एस.एन. श्रीवास्तव	उपयंत्री	2371964
5.	श्री ए.बी. शर्मा	उपयंत्री	9826154029
6.	श्री एम.एस. नागोरे	उपयंत्री	2317020
7.	श्री ए.के. दुबे	उपयंत्री	9826193103
8.	श्री एस.सी. चौकसे	उपयंत्री	2422148
9.	श्री व्ही.के. डहेरिया	उपयंत्री	
10.	श्री एस.एम. पागे	उपयंत्री	2421276
11.	श्री एस.आर. गर्ग	उपयंत्री	5032173
12.	श्री पी.एल. पटेल	उपयंत्री	
13.	श्री एस.के. शर्मा	उपयंत्री	2370608
14.	श्री पी.एल. श्रीवास्तव	उपयंत्री	
15.	श्री एल.पी. शर्मा	सहायक ग्रेड-2	2628919
16.	श्री आर.के. गुप्ता	ट्रेसर	
17.	श्री के.एस. ठाकुर	सहायक मानचित्रकार	
18.	श्री एम.एल. रैकवार	सहायक ग्रेड-3	
19.	श्री सुनील कुमार जैन	सहायक ग्रेड-3	
20.	श्री एस.पी. पाण्डे	अमीन	
21.	श्री एम.के. रोहितास	अमीन	
22.	श्री एस.के. दवंडे	अमीन	
23.	श्री आर.आर. वैद्य	अमीन	
24.	श्री के.आर. मार्को	अमीन	
25.	श्री बलराम भृत्य		

क्रमशः ..2

-2-

स. क्रं.	नाम	पदनाम	पता एवं दूरभाष सम्पर्क नम्बर, यदि हो.
	कार्यभारित स्टाप		

1.	श्री विजय श्रीवास्तव	ड्राईवर	
2.	श्री पी.के. दुबे	ड्राईवर	
3.	श्री पी.एल. शुक्ला	टाईम कीपर	
4.	श्री कुन्दन गिरी	टाईम कीपर	
5.	श्री आर.एस. जाट	टाईम कीपर	
6.	पीर बक्श	टाईम कीपर	
7.	श्री जी.आर. गूजर	फिटर	
8.	श्री चन्द्रशेखर पटवर्धन	चौकीदार	
9.	श्री नीलासिंह	कुक	
10.	श्री रमाकांत शर्मा	हेल्पर	
11.	श्री डी.एल. शर्मा		
12.	श्री नरेश कुमार	स्वीपर	
13.	श्री राजेन्द्र कुमार	स्वीपर	
14.	श्री श्यामसुंदर	स्वीपर	
15.	श्री डेनियल	स्वीपर	
16.	श्री हीरालाल	चौकीदार	
17.	श्री तीरथ प्रसाद		
18.	श्री लल्लू माली		
19.	श्री लीलाधर		
20.	श्री दिनेश कुमार		
21.	श्री खेरसिंह		
22.	श्री बसोरीलाल	वाटरमेन	
23.	श्री कमलेश दुबे	आफिस चौकीदार	
24.	श्री पूरनसिंह		
25.	श्री आर.एस. शुक्ला		
26.	श्री जी.एस. बर्मन		
27.	श्री राम पटवर्धन	डाकरनर	
28.	श्रीमती सत्तोबाई	वाटरमेन	

क्रमशः ..3

—3—

स. क्रं.	नाम	पदनाम	पता एवं दूरभाष सम्पर्क नम्बर, यदि हो.
	<u>दै.वे.भो. स्टाप</u>		

1.	श्री मिथलेश कुमार गर्ग		
2.	श्री रामदयाल रजक		
3.	श्री राजकुमार मिश्रा		
4.	श्री रामकुशल सोनी		
5.	श्री रामगोपाल ठाकुर		
6.	श्री जी.एस. कपूर		
7.	श्री केशव प्रसाद विश्वकर्मा		
8.	श्री कमल सिंह ठाकुर		
9.	श्री महेन्द्र शर्मा		
10.	श्री सुबोध कुमार गर्ग		
11.	श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर		
12.	श्री संजय शुक्ला		
13.	श्री गेंदालाल यादव		
14.	श्री मानसिंह		
15.	श्री संतोष ताम्रकार		
16.	श्री रामसजीवन		
17.	श्री कन्हाईपाल		
18.	श्री अनिल राय		
19.	श्री विजय कुमार दुबे		
20.	श्री रामकुमार शुक्ला		
21.	श्री सुरेश शर्मा		
22.	श्री नरेन्द्र तिवारी		
23.	श्रीमती आशा सिंह		
24.	श्री हंसराज बेन		
25.	श्री केदारनाथ		
26.	श्री पुन्नूलाल		
27.	श्री चन्नूलाल		
28.	श्री सुक्कूलाल		

क्रमशः ..4

-4-

स. क्रं.	नाम	पदनाम	पता एवं दूरभाष सम्पर्क नम्बर, यदि हो.

29.	श्री एहसान शा		
30.	श्री रज्जब शा		
31.	श्री विश्राम नामदेव		
32.	श्री इन्द्रकुमार महेरे		
33.	श्री भिम्मा		
34.	श्री नंदलाल पटेल		
35.	श्री विजय शंकर पटेल		
36.	श्री डब्बलसिंह		
37.	श्री प्रभुलाल		
38.	श्री अखिलेश		
39.	श्री सरोज कुमार गर्ग		
40.	श्री बिहारी		
41.	श्री रामनरेश साहू		
42.	श्री पुरुषोत्तम बर्मन		
43.	श्री दिलीप कुमार सेन		
44.	श्री प्रदीप कुमार शुक्ला		
45.	श्री कमलेश मिश्रा		
46.	श्री जगदीश रैकवार		
47.	श्री अनिल कुमार सोनी		
48.	श्री राधेश्याम माली		
49.	श्री राजेश श्रीवास्तव		
50.	श्री प्रकाशचंद बर्मन		
51.	श्री पुरुषोत्तम बर्मन		
52.	श्री मुकेश कुमार शुक्ला		
53.	श्री श्याम सुंदर हरदया		
54.	श्री प्रहलाद सिंह नोरिया		
55.	श्री सुशील कुमार दुबे		

क्रमशः ..5

-5-

स. क्रं.	नाम	पदनाम	पता एवं दूरभाष सम्पर्क नम्बर, यदि हो.

56.	श्री सीताराम रजक		
57.	श्री नोखेलाल मरावी		
58.	श्री चोखेलाल मरावी		
59.	श्री प्रकाश कुमार लोधी		
60.	श्री प्रेमलाल तिवारी		
61.	श्री राजबहादुर गौड़		
62.	श्री प्रहलाद सैनी		
63.	श्री जितेन्द्र तिवारी		
64.	श्री सुदामा प्रसाद सोंधिया		
65.	श्री अरूण अहिरवार		
66.	श्री सुरेश श्रीवास्तव		
67.	श्री राम मिलन		
68.	श्री ओंकार पटेल		
69.	श्री सुरेश यादव		
70.	श्री मंगल सिंह		
71.	श्री रतन पटैल		
72.	श्री जमना प्रसाद मिश्रा		
73.	श्री हरिशंकर पटेल		
74.	श्री सुनील पटेल		
75.	श्री विनोद गुप्ता		
76.	श्री कल्लू सिंह ठाकुर		
77.	श्री एल.एन. झारिया		
78.	श्री बी.पी. चौरसिया		
79.	श्री जगदीश प्रसाद		

10.0 प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

स. क्रं.	नाम	मासिक पारिश्रमिक (कुल परिलब्धियां)	पारितोषिक/पारितोषिक भत्ता
----------	-----	------------------------------------	---------------------------

1.	श्री एस.सी. जैन		
2.	श्री आर.के. पटेल	10394=00	
3.	श्री डी.के. बजाज	13001=00	
4.	श्री एस.एन. श्रीवास्तव	12648=00	
5.	श्री ए.बी. शर्मा	10986=00	
6.	श्री एम.एस. नागोरे	13800=00	
7.	श्री ए.के. दुबे	13800=00	
8.	श्री एस.सी. चौकसे	13800=00	
9.	श्री व्ही.के. डहेरिया	9079=00	
10.	श्री एस.एम. पागे	13800=00	
11.	श्री एस.आर. गर्ग	11135=00	
12.	श्री पी.एल. पटेल	14616=00	
13.	श्री एस.के. शर्मा	14198=00	
14.	श्री पी.एल. श्रीवास्तव	13959=00	
15.	श्री एल.पी. शर्मा	9848=00	
16.	श्री आर.के. गुप्ता	6621=00	
17.	श्री के.एस. ठाकुर	8576=00	
18.	श्री एम.एल. रैकवार	5108=00	
19.	श्री सुनील कुमार जैन	5067=00	
20.	श्री एस.पी. पाण्डे	5285=00	
21.	श्री एम.के. रोहितास	5985=00	
22.	श्री एस.के. दवंडे	6034=00	
23.	श्री आर.आर. वैद्य	5985=00	
24.	श्री के.आर. मार्को	6106=00	
25.	श्री बलराम भृत्य	3855=00	

क्रमशः ..2

-2-

स. क्रं.	नाम	मासिक पारिश्रमिक (कुल परिलब्धियां)	पारितोषिक/पारितोषिक भत्ता
	<u>कार्यभारित स्टाप</u>		

1.	श्री विजय श्रीवास्तव	5187=00	
2.	श्री पी.के. दुबे	5439=00	
3.	श्री पी.एल. शुक्ला	5360=00	
4.	श्री कुन्दन गिरी	4422=00	
5.	श्री आर.एस. जाट	4387=00	
6.	श्री पीर बक्श	4995=00	
7.	श्री जी.आर. गूजर	6890=00	
8.	श्री चन्द्रशेखर पटवर्धन	4280=00	
9.	श्री नीलासिंह	3845=00	
10.	श्री रमाकांत शर्मा	4133=00	
11.	श्री डी.एल. शर्मा	4178=00	
12.	श्री नरेश कुमार	4408=00	
13.	श्री राजेन्द्र कुमार	3761=00	
14.	श्री श्यामसुंदर	3616=00	
15.	श्री डेनियल	3701=00	
16.	श्री हीरालाल	3367=00	
17.	श्री तीरथ प्रसाद	4547=00	
18.	श्री लल्लू माली	4721=00	
19.	श्री लीलाधर	3385=00	
20.	श्री दिनेश कुमार	4132=00	
21.	श्री खेरसिंह	4294=00	
22.	श्री बसोरीलाल	4447=00	
23.	श्री कमलेश दुबे	4251=00	
24.	श्री पूरनसिंह	4662=00	
25.	श्री आर.एस. शुक्ला	3079=00	
26.	श्री जी.एस. बर्मन	3668=00	
27.	श्री राम पटवर्धन	3375=00	
28.	श्रीमती सत्तोबाई	4066=00	

क्रमशः ..3

—3—

स. क्रं.	नाम	मासिक पारिश्रमिक (कुल परिलब्धियां)	पारितोषिक/पारितोषिक भत्ता
	<u>दै.वे.भो. स्टाप</u>		

1.	श्री मिथलेश कुमार गर्ग	4263=00	
2.	श्री रामदयाल रजक	4263=00	
3.	श्री राजकुमार मिश्रा	4263=00	
4.	श्री रामकुशल सोनी	4263=00	
5.	श्री रामगोपाल ठाकुर	4263=00	
6.	श्री जी.एस. कपूर	4263=00	
7.	श्री केशव प्रसाद विश्वकर्मा	4263=00	
8.	श्री कमल सिंह ठाकुर	4263=00	
9.	श्री महेन्द्र शर्मा	4263=00	
10.	श्री सुबोध कुमार गर्ग	4263=00	
11.	श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर	4263=00	
12.	श्री संजय शुक्ला	3953=00	
13.	श्री गेंदालाल यादव	3953=00	
14.	श्री मानसिंह	3953=00	
15.	श्री संतोष ताम्रकार	3953=00	
16.	श्री रामसजीवन	3953=00	
17.	श्री कन्हार्डपाल	3953=00	
18.	श्री अनिल राय	3953=00	
19.	श्री विजय कुमार दुबे	4263=00	
20.	श्री रामकुमार शुक्ला	2526=00	
21.	श्री सुरेश शर्मा	2526=00	
22.	श्री नरेन्द्र तिवारी	2416=00	
23.	श्रीमती आशा सिंह	2308=00	
24.	श्री हंसराज बेन	2308=00	
25.	श्री केदारनाथ	2308=00	
26.	श्री पुन्नूलाल	2308=00	
27.	श्री चन्नूलाल	2308=00	
28.	श्री सुक्कूलाल	2308=00	

क्रमशः ..4

-4-

स. क्रं.	नाम	मासिक पारिश्रमिक (कुल परिलब्धियां)	पारितोषिक/पारितोषिक भत्ता

29.	श्री एहसान शा	2308=00	
30.	श्री रज्जब शा	2308=00	
31.	श्री विश्राम नामदेव	2308=00	
32.	श्री इन्द्रकुमार महेरे	2308=00	
33.	श्री भिम्मा	2308=00	
34.	श्री नंदलाल पटेल	2308=00	
35.	श्री विजय शंकर पटेल	2308=00	
36.	श्री डब्लसिंह	2308=00	
37.	श्री प्रभुलाल	2308=00	
38.	श्री अखिलेश	2308=00	
39.	श्री सरोज कुमार गर्ग	2308=00	
40.	श्री बिहारी	2308=00	
41.	श्री रामनरेश साहू	2416=00	
42.	श्री पुरुषोत्तम बर्मन	2416=00	
43.	श्री दिलीप कुमार सेन	2308=00	
44.	श्री प्रदीप कुमार शुक्ला	2526=00	
45.	श्री कमलेश मिश्रा	2308=00	
46.	श्री जगदीश रैकवार	2308=00	
47.	श्री अनिल कुमार सोनी	2308=00	
48.	श्री राधेश्याम माली	2308=00	
49.	श्री राजेश श्रीवास्तव	2308=00	
50.	श्री प्रकाशचंद बर्मन	2308=00	
51.	श्री पुरुषोत्तम बर्मन	2308=00	
52.	श्री मुकेश कुमार शुक्ला	2308=00	
53.	श्री श्याम सुंदर हरदया	2308=00	
54.	श्री प्रहलाद सिंह नोरिया	2308=00	
55.	श्री सुशील कुमार दुबे	2308=00	

क्रमशः ..5

-5-

स. क्रं.	नाम	मासिक पारिश्रमिक (कुल परिलब्धियां)	पारितोषिक/पारितोषिक भत्ता

56.	श्री सीताराम रजक	2308=00
57.	श्री नोखेलाल मरावी	2308=00
58.	श्री चोखेलाल मरावी	2308=00
59.	श्री प्रकाश कुमार लोधी	2308=00
60.	श्री प्रेमलाल तिवारी	2308=00
61.	श्री राजबहादुर गौड़	2526=00
62.	श्री प्रहलाद सैनी	1719=00
63.	श्री जितेन्द्र तिवारी	1719=00
64.	श्री सुदामा प्रसाद सोंधिया	1719=00
65.	श्री अरूण अहिरवार	1573=00
66.	श्री सुरेश श्रीवास्तव	1573=00
67.	श्री राम मिलन	1573=00
68.	श्री ओंकार पटेल	2308=00
69.	श्री सुरेश यादव	2308=00
70.	श्री मंगल सिंह	2308=00
71.	श्री रतन पटैल	2539=00
72.	श्री जमना प्रसाद मिश्रा	2308=00
73.	श्री हरिशंकर पटेल	1573=00
74.	श्री सुनील पटेल	1573=00
75.	श्री विनोद गुप्ता	1573=00
76.	श्री कल्लू सिंह ठाकुर	6079=00
77.	श्री एल.एन. झारिया	5410=00
78.	श्री बी.पी. चौरसिया	3604=00
79.	श्री जगदीश प्रसाद	4551=00

### 11.0 प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

- 11.1 निर्माण, विकास, तकनीकी कार्य करने वाले लोक प्राधिकरणों के लिए :  
लोक प्राधिकरण के प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट की सूचना, जिसमें कि सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना हो, निम्न प्रारूप में दें।

वर्ष 2004-05 :

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारंभ होने का दिनांक	कार्य के समापन का अनुमानित दिनांक	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किशतों में)	कुल व्यय	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी
1.	इमलई जलाशय		1/82	3/07	20.00	20.00	एकमुश्त	9.98	उपयंत्री एवं
2.	डोली जलाशय		4/83	3/05	40.00	1.00	सकल	37.24	अनुविभागीय
3.	चुरिया जलाशय		3/88	पूर्ण	2.00	2.00	राशि	0.00	अधिकारी
4.	सर्वेक्षण कार्य (गैर आदिवासी)		4/04	3/05	5.00	2.00	प्राप्त हुई।	5.38	
5.									
6.									

- 11.2 अन्य लोक प्राधिकरणों के लिए : निरंक

12.0 अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति  
कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराएं :

○ कार्यक्रम/योजना का नाम	निरंक
○ कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा	
○ कार्यक्रम का उद्देश्य	
○ कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)	
○ लाभार्थी की पात्रता	
○ पूर्वापेक्षाएं	
○ अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया	
○ पात्रता निश्चित करने के लिए मानदण्ड	
○ दिए जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो)	
○ अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया	
○ आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें।	
○ आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)	
○ अन्य शुल्क (जहां उचित हो)	
○ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)	
○ संलग्नकों की सूची	
○ संलग्नकों का प्रारूप	
○ प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें	
○ उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर, जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि)	

◇ लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर)

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला/गांव	मकान नम्बर
निरंक								

13.0 रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराएं।

◇ कार्यक्रम का नाम	निरंक
◇ प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार में से एक चुनें)	
◇ उद्देश्य	
◇ लक्ष्य (विगत वर्ष में)	
◇ पात्रता	
◇ पात्रता का आधार	
◇ पूर्वापेक्षाएं	
◇ प्राप्त करने की प्रक्रिया	
◇ रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिए जाने के लिए निर्धारित समय सीमा	
◇ आवेदन शुल्क	
◇ आवेदन पत्र का प्रारूप	
◇ संलग्नकों की सूची	
◇ संलग्नकों का प्रारूप	

◇ प्राप्तिकर्ताओं की सूची (निम्न प्रारूप पर)

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	प्राप्तिकर्ता का नाम	वैधता किस दिनांक तक है	वल्दियत	निवास			
				जिला	शहर	मोहल्ला/गांव	मकान नं.
निरंक							

रियायत के लिए निम्न जानकारी भी उपलब्ध कराएं :

◇ दिए जाने वाले लाभ का विवरण

निरंक

◇ लाभ के वितरण की प्रक्रिया

निरंक

14.0 कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

लोक प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु प्रयोग किए जाने वाले मानक/नियमों का कार्यक्रमवार विवरण उपलब्ध कराएं।

कार्य विभाग नियमावली 1983

यूनिफाईड शेड्यूल ऑफ रेट्स, 2003

सिंचाई स्पेसिफिकेशन्स

15.0 इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं

विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करें जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो।

जल संसाधन विभाग की वेबसाइट में उपलब्ध विभागीय जानकारीया

16.0 सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विभाग/संगठन द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण

- सूचना पटल
- सूचना काउण्टर
- वेबसाइट

17.0 अन्य उपयोगी जानकारियां

17.1 लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न उनके उत्तर.

पूछे जाने वाले प्रश्नों व की जानकारी की उपलब्धता के अनुरूप उत्तर दिए जाते हैं।

## 17.2 सूचना प्राप्त करने के संबंध में

● आवेदन पत्र ( तथा संदर्भ के लिए एक भरे हुए आवेदन पत्र की प्रति)	प्रारूप आवेदन पत्र संलग्न है।
● शुल्क	विभाग के प्रावधान अनुसार
● सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से मांगी जाए- कुछ टिप्स	लिखित आवेदन द्वारा
● सूचना न देने व अपील करने के संबंध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया	नागरिक द्वारा अपीलीय प्राधिकारी कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग ----- को अपील प्रस्तुत की जा सकती है

## 17.3 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में .

● प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम व विवरण	निरंक
● प्रशिक्षण कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय-सीमा	
● प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य	
● प्रशिक्षण कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)	
● लाभार्थी की पात्रता	
● पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो)	
● अनुदान/सहायता (यदि हो तो)	
● दिए जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो)	
● अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया	
● आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें	
● आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)	
● अन्य शुल्क (जहां उचित हो)	
● आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)	
● संलग्नकों की सूची	

● संलग्नकों का प्रारूप	
● आवेदन करने की प्रक्रिया	
● चयन प्रक्रिया	
● प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सारिणी (यदि हो तो)	
● प्रशिक्षण के समय के बारे में आवेदक को सूचित करने का तरीका	
● प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले कार्य	
● विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इत्यादि पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थियों की सूची तथा अन्य विवरण	

17.4 लोक प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि के संबंध में जो कि मैन्यूअल 13 में न सम्मिलित हो.

■ प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि का नाम व विवरण	निरंक
■ प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने हेतु पात्रता	
■ आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें	
■ आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)	
■ अन्य शुल्क (जहां उचित हो)	
■ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)	
■ संलग्नकों की सूची	
■ संलग्नकों का प्रारूप	
■ आवेदन करने की प्रक्रिया	
■ आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदन द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती हैं)	
■ आवेदन की सारी प्राथमिकताएं सही तरह से पूरी करने के पश्चात प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, आदि जारी करने के लिए निर्धारित समय अवधि	
■ प्रमाण पत्र के प्रभावी रहने की समय सीमा (यदि हो तो)	
■ नवीनीकरण की प्रक्रिया (यदि हो तो)	

## 17.5 लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के संबंध में

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ पंजीयन का उद्देश्य</li> </ul>	निरंक
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ आवेदक की पात्रता</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ अन्य शुल्क (जहां उचित हो)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ संलग्नकों की सूची</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ संलग्नकों का प्रारूप</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ आवेदन करने की प्रक्रिया</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती हैं)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ प्रभावी रहने की समय-सीमा (यदि हो तो)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ नवीनीकरण की प्रक्रिया</li> </ul>	

## 17.6 लोक प्राधिकरण (Municipal Corporation, Trade tax, entertainment tax, आदि) द्वारा टैक्स लेने के संबंध में.

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ टैक्स का नाम व विवरण</li> </ul>	निरंक
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ टैक्स लेने का उद्देश्य</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ टैक्स निर्धारण करने के लिए मापदंड व प्रक्रिया</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ बड़े (major) डिफाल्टर्स की सूची</li> </ul>	


## 17.7 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाले बिजली/पानी के कनेक्शन, कनेक्शन को अस्थायी/स्थायी रूप से विच्छेदन आदि के संबंध में (यह सूचना स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका/नगर परिषद्/OPCL द्वारा दी जा सकती है)

■ आवेदक की पात्रता	निरंक
■ पूर्वपेक्षाएं (यदि हो तो)	
■ आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें	
■ आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)	
■ अन्य शुल्क/देय (जहां उचित हो)	
■ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)	
■ संलग्नों की सूची	
■ संलग्नों का प्रारूप	
■ आवेदन करने की प्रक्रिया	
■ आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती है)	
■ बिल में प्रयोग किए गए शब्दों का विवरण	
■ बिल तथा अन्य सेवाओं के संबंध में समस्या होने की स्थिति में सम्पर्क सूचना	
■ टेरिफ तथा अन्य देय	

17.8 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण

निरंक

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी  
संगठनात्मक ढांचा



## निर्णय लेने की कार्यप्रणाली

क्र	कक्ष	प्रारंभिक कार्य करने वाले कर्मचारी /अधिकारी	प्रत्येक स्तर पर जांच करने वाला अधिकारी/ कर्मचारी	अंतिम निर्णय लेने वाला अधिकारी
1.	2.	3.	4.	5.
1.	कार्य संबंधित	उपयंत्री/ सहायक मानचित्रकार/ अनुरेखक	अनुविभागीय अधिकारी/ उपयंत्री	अनुविभागीय अधिकारी
2.	स्टोर लेखा संबंधित	उपयंत्री/स्टोर प्रभारी	अनुविभागीय अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी
3.	अन्य लेखा संबंधी	सहायक वर्ग-2/सहायक वर्ग-3	अनुविभागीय अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी
3.	स्थापना संबंधित	सहायक वर्ग-2/सहायक वर्ग-3	अनुविभागीय अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी
4.	सिंचाई राजस्व संबंधित	अमीन	उपयंत्री	अनुविभागीय अधिकारी

अनुविभागीय कार्यालय में संधारित विभिन्न प्रकार के अभिलेखों/दस्तावेजों की जानकारी

क्रं.	अभिलेख का नाम	अभिलेख का प्रकार पुस्तक/ रजिस्टर	अभिलेख की प्रकृति	अभिलेख की अवधि
1.	2.	3.	4.	5.
1	सिंचाई कार्यों के लिये तकनीकी परिपत्रों का संकलन	पुस्तक	हार्डकापी	
2	म.प्र.कार्य/विभाग मेनुअल भाग 1,2,3,	पुस्तक	हार्डकापी	
3	प्रशासकीय स्वीकृति	रजिस्टर	हार्डकापी	
4	तकनीकी स्वीकृति	रजिस्टर	हार्डकापी	
5	योजनावार सिंचाई का विवरण	रजिस्टर	हार्डकापी	
6	योजनावार राजस्व वसूली का विवरण	रजिस्टर	हार्डकापी	
7	सर्वेक्षित योजना का विवरण	रजिस्टर	हार्डकापी	
8	जल उपयोगिता में कृषकों की भागेदारी अधिनियम 1999	पुस्तक	हार्डकापी	
9	यात्रा भत्ता रजिस्टर	रजिस्टर	हार्डकापी	
10	आकस्मिक अवकाश	रजिस्टर	हार्डकापी	
11	वेतन रजिस्टर	रजिस्टर	हार्डकापी	
12	भाड़ा अभिलेख	रजिस्टर	हार्डकापी	
13	इन्कम्बेंसी	रजिस्टर	हार्डकापी	
14	वेतन बृद्धि	रजिस्टर	हार्डकापी	
15	कार्य की प्रचलित दरें (सी.एस.आर.)	पुस्तक	हार्डकापी	
16	चेक बुक प्राप्ति	रजिस्टर	हार्डकापी	
17	स्टाक संबंधी फार्म	फार्म	हार्डकापी	
18	टी.एण्ड.पी. संबंधी फार्म	फार्म	हार्डकापी	
19	न्यायालयीन प्रकरण	रजिस्टर	हार्डकापी	
20	रेमिटेन्स पुस्तिका	रजिस्टर	हार्डकापी	
21	माप पुस्तिका पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
22	शिकायत/लोकायुक्त प्रकरण	रजिस्टर	हार्डकापी	
23	वर्क एबस्ट्रक्ट	रजिस्टर	हार्डकापी	

24	मस्टररोल पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
25	भुगतान न की गई मजदूरी की पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
26	आवक पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
27	जावक पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
28	प्रशासकीय स्वीकृति की पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
29	तकनीकी स्वीकृति	रजिस्टर	हार्डकापी	
30	बिल पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
31	बांधों के वार्षिक /चक्रानुसार निरीक्षण की पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
32	सम्पत्तियों की पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
33	सड़क/नहरो पर निर्मित पक्के कार्यों की पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
34	बेंच मार्क पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
35	विद्युत यांत्रिकी उपकरणों की पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
36	प्रदाय कर्ताओं के देयको की पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
37	इनडेन्ट बुक	पुस्तिका	हार्डकापी	
38	तिजोरी की चाभी की पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
39	मशीनों एवं वाहनों की लाग बुक	पुस्तिका	हार्डकापी	
40	मशीनों एवं कार्य शाला संयंत्रों की हिस्टी सीट	रजिस्टर	हार्डकापी	
41	स्पिल्वे से निकलने वाली जल की मात्रा का विवरण दर्शाने वाली पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
42	टैक गेज पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
43	रेन गेज पंजी	रजिस्टर	हार्डकापी	
44	जाब रजिस्टर	रजिस्टर	हार्डकापी	